

## **नाबालिग युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा नाबालिग युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-** दिनांक 07.08.2022 को वादी मुकदमा नि० थानाक्षेत्र बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव ने थाना बेहटा मुजावर पुलिस को तहरीरी सूचना दी कि प्रार्थी की पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष जो दि० 01.08.2022 को रात करीब 3 बजे मंगलू पुत्र शिवलाल नि० अरगूपुर थाना बेहटा मुजावर जनपद उन्नाव बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है तथा तथा मैने काफी तलाश की परन्तु कुछ पता नहीं चल सका है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 211/2022 धारा 363/366 भादवि का पंजीकृत



किया गया। दिनांक 01.12.2022 को मुखबिर की सूचना पर अपहृता को थाना क्षेत्र के मटुकरी चौराहे से बरामद किया गया तथा अभियुक्त मंगलू उपरोक्त की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 04.12.2022 को ग्राम संचान कोट से गिरफ्तार किया गया ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1. मंगलू पुत्र शिव लाल निवासी ग्राम अरगूपुर थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव उम्र करीब 35 वर्ष

### **पुलिस टीम**

1. उ०नि० शमीम खाँ
2. का० पवन कुमार
3. का० चा० श्रवण कुमार

## **05 वारंटी गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उन्नाव पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

### **थाना हसनगंज-**

आज दिनांक 04.12.2022 को उ0नि0 योगेन्द्र प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह, उ0नि0 खुशाल प्रसाद, उ0नि0 धर्मवीर सिंह मय हमराह हे0का0 राम पाल सिंह, का0 राजेश कुमार, का0 प्रमोद राघव, का0 पंकज कुमार , का0 विजय यादव द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. उमाशंकर उर्फ कल्लू पुत्र महावीर नि0 अमोइया थाना हसनगंज जनपद उन्नाव 2. संतू पासी पुत्र कल्लू पासी नि0 हाजीपुर थाना हसनगंज जनपद उन्नाव 3. भइयन उर्फ हीरालाल पुत्र पुत्तन नि0 उपरोक्त 4. जटाशंकर पुत्र कृष्ण बिहारी नि0 गौरी थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

### **थाना बीघापुर-**

आज दिनांक 04.12.2022 को उ0नि0 श्री अचल कुमार मय हमराह का0 कपिल मावी द्वारा वारंटी अभियुक्त राम लखन उर्फ लखन पुत्र गरीबे नि0 सिंगहा थाना बीघापुर जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

## **100 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ दो अभियुक्ता गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुरवा के कुशल पर्यवेक्षण में अवैध शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मौरावां पुलिस द्वारा दो अभियुक्ताओं को कब्जे से 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया ।

**संक्षिप्त विवरण:-** आज दिनांक 04.12.2022 को थाना मौरावां पुलिस व आबकारी टीम के द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान थाना मौरावां क्षेत्र के ग्राम रंजीत खेडा के पास से अभियुक्तागण 1. अनीता पत्नी दिनेश पासी नि० रंजीत खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब 2. रेखा देवी पत्नी बहादुर पासी नि० छोटी गौरी थाना मौरावां, उन्नाव के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब को बिक्री/परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया । अभियुक्ताओं की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मौरावां पर नियमानुसार 1. मु०अ०सं० 595/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम अनीता पत्नी दिनेश पासी नि० रंजीत खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव 2. मु०अ०सं० 596/2022 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम रेखा देवी पत्नी बहादुर पासी नि० छोटी गौरी थाना मौरावां, उन्नाव पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

### **गिरफ्तार अभियुक्तागण का विवरण**

1. अनीता पत्नी दिनेश पासी नि० रंजीत खेडा थाना मौरावां जनपद उन्नाव
2. रेखा देवी पत्नी बहादुर पासी नि० छोटी गौरी थाना मौरावां, उन्नाव

### **बरामदगी का विवरण-**

अभियुक्ताओं के कब्जे से कुल 100 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई ।

### **पुलिस टीम-**

1. उ०नि० श्री मोर मुकुट पाण्डेय
2. हेड का० विनय यादव
3. का० डिगम्बर सिंह
4. म०कां० श्रद्धा

### **आबकारी टीम -**

1. प्र०आ० राम प्रकाश दीक्षित